

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

वर्ष 2013-14 के कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- एनएसआईसी का वर्ष 2013-14 के दौरान समग्र करोबार 17,444 करोड़ रुपये हुआ है, 2012-13 के दौरान यह 13,901 करोड़ रुपये का रहा, जोकि 25 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
- एनएसआईसी ने वर्ष 2013-14 में एमएसएमई इकाईयों को 8,74,266 मीट्रिक टन कच्चा माल वितरित किया जबकि पिछले वर्ष में 7,83,309 मीट्रिक टन कच्चा माल की आपूर्ति की गई।
- पिछले वर्ष 2012-13 में निगम की रही कुल आय 341.76 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 2013-14 में सकल आय 418.04 करोड़ रुपये हो गई है।
- निगम ने वर्ष 2013-14 के लिए कर से पूर्व 114.71 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया है वर्ष 2012-13 में यह 92.35 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से 24 प्रतिशत की अधिक वृद्धि को सूचित करता है।
- निगम ने पिछले वर्ष 2012-13 में 12.47 करोड़ रुपये के दिए गए लाभांश की तुलना में 2013-14 में 15.19 करोड़ रुपये का लाभांश प्रदान किया।
- निगम के संचित घाटे पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और 31 मार्च, 2013 को रहे 28.39 करोड़ रुपये के संचित घाटों की तुलना में इस वर्ष मार्च, 2014 को निगम के पास 27.93 करोड़ रुपये का सरप्लस है।
- इस वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को 5186 करोड़ रुपये की क्रेडिट सहायता प्रदान की गई पिछले वर्ष में यह सहायता 4392 करोड़ रुपये थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान परफॉर्मेंस एण्ड क्रेडिट रेटिंग स्कीम के अंतर्गत 24886 यूनिटों की रेटिंग की गई जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में 19676 यूनिटों की रेटिंग हुई थी, जो 26 प्रतिशत वृद्धि को दर्ज करती है।
- निगम ने वर्ष 2013-14 के दौरान 1,06,144 ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में 96,338 ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया गया था।
- सरकारी खरीद योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की 3652 यूनिटों को पंजीकृत करने की तुलना में इस वर्ष के दौरान 4121 नए सदस्यों को इस योजना में जोड़ा गया।
- निगम ने वर्ष 2013-14 के दौरान 5615 नई यूनिटों को इन्फोमीडियरी सेवाएं प्रदान की हैं जो वर्ष 2012-13 में 4936 थीं।